



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 611]
No. 611]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 29, 2006/पौष 8, 1928
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 29, 2006/PAUSA 8, 1928

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2006

सं. 28/2006-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गैर-टैरिफ)

सा.का.नि. 777(अ).— केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 4 ए की उप धारा (1) तथा उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस संतुष्टि के बाद कि जनहित में ऐसा किया जाना आवश्यक है, एतद्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के निम्नलिखित तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अधिसूचनाओं को उक्त तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट अनुरूप प्रविष्टि की सीमा तक आगे संशोधित करती है :-

तालिका

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या एवं दिनांक	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1	2/2005- के.उ.शु.(एन.टी), जी.एस.आर.10 (ई) दिनांक 07 जनवरी 2005 द्वारा	(i) उक्त अधिसूचना में, "अध्याय अथवा शीर्ष संख्या अथवा उपशीर्ष संख्या" शब्दों के लिये, जहाँ भी वे आते हैं, "अध्याय" शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा ; (ii) तालिका में, - (क) क्रम सं० 1 के सामने, कॉलम (2) में प्रविष्टि के लिये, प्रविष्टि "30" को प्रतिस्थापित किया जायेगा ; तथा

		<p>(ख) क्रम सं० 2 के सामने, कॉलम (2) में प्रविष्टि के लिये, प्रविष्टि "30" को प्रतिस्थापित किया जायेगा</p> <p>(iii) अधिसूचना के अंत में स्पष्टीकरण के लिये, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा-</p> <p>"स्पष्टीकरण 1- इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिये, "खुदरा बिक्री मूल्य" का अर्थ है विनिर्माता द्वारा ड्रग्स (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1995 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदर्शित खुदरा मूल्य।</p> <p>स्पष्टीकरण 2- इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिये, "पेटेन्ट अथवा प्रोप्राइटरी मेडीकेमेन्ट" का अर्थ है मनुष्यों अथवा पशुओं की बीमारियों की रोकथाम के लिए अथवा उनके आन्तरिक अथवा बाह्य उपचार में प्रयोग के लिए, किसी भी रूप में, कोई औषधि अथवा औषधीय प्रीपैरेशन जिस पर स्वयं अथवा इसके कन्टेनर पर अथवा दोनों पर ऐसा नाम हो, जो मोनोग्राफ में, फार्माकॉपोइया में, फार्मुलरी अथवा अन्य प्रकाशनों में विनिर्दिष्ट नहीं है, जिनके नाम हैं :-</p> <p>(क) द इंडियन फार्माकॉपोइया ;</p> <p>(ख) द इंटरनेशनल फार्माकॉपोइया ;</p> <p>(ग) द नेशनल फार्मुलरी ऑफ इंडिया ;</p> <p>(घ) द ब्रिटिश फार्माकॉपोइया ;</p> <p>(च) द ब्रिटिश फार्मास्युटिकल कोडेक्स ;</p> <p>(छ) द ब्रिटिश वेट्रिनरी कोडेक्स ;</p> <p>(ज) द यूनाईटेड स्टेट्स फार्माकॉपोइया ;</p> <p>(झ) द नेशनल फार्मुलरी ऑफ द यू.एस.ए. ;</p> <p>(त) द डेंटल फार्मुलरी आफ द यू.एस.ए. ; तथा</p> <p>(थ) द स्टेट फार्माकॉपोइया आफ द यू.एस.एस.आर.,</p> <p>अथवा जो एक ब्राण्ड नाम है, अर्थात्, नाम अथवा ट्रेड मार्क अधिनियम, 1999 (1999 का 47) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड ट्रेड मार्क,</p>
--	--	--

		अथवा कोई अन्य मार्क जैसे प्रतीक, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर अथवा आविष्कृत शब्द अथवा कोई लिखावट जो, संकेत के उद्देश्य से उस दवाई के संबंध में, अथवा व्यापार के दौरान दवाई और किसी व्यक्ति जिसके पास व्यक्ति की पहचान को इंगित करते हुए अथवा इंगित किए बिना, नाम अथवा मार्क का प्रयोग करने के लिए प्रोपराईटर के रूप में अथवा अन्यथा अधिकार है, के बीच संबंध को इंगित करने के लिए प्रयोग में आती है"।																				
2	2/2006- के.उ.शु.(एन.टी), जी.एस.आर.113 (ई) दिनांक 01 मार्च, 2006 द्वारा	उक्त अधिसूचना के साथ अनुबंधित तालिका में, - (i) क्रम सं० 46 के सामने, कॉलम (2) में प्रविष्टि के लिये, प्रविष्टि "3808" प्रतिस्थापित की जायेगी ; (ii) क्रम सं० 46 के बाद, निम्नलिखित क्रम सं० तथा प्रविष्टियाँ डाली जायेंगी, जिनके नाम हैं :- <table><tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td></tr><tr><td>"46ए</td><td>3808 93 40</td><td>प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर</td><td>30%";</td></tr></table> (iii) क्रम सं० 70 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियाँ डाली जायेंगी, जिनके नाम हैं <table><tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td></tr><tr><td>"70ए</td><td>8443</td><td>फेसीमाईल मशीन</td><td>40%";</td></tr></table> (iv) क्रम सं० 73 के सामने कॉलम (2) में, अंक "8470 40" का लोप किया जायेगा ; (v) क्रम सं० 75 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम सं० तथा प्रविष्टियाँ डाली जायेंगी, जिनके नाम हैं : <table><tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td></tr></table>	(1)	(2)	(3)	(4)	"46ए	3808 93 40	प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर	30%";	(1)	(2)	(3)	(4)	"70ए	8443	फेसीमाईल मशीन	40%";	(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	(2)	(3)	(4)																			
"46ए	3808 93 40	प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर	30%";																			
(1)	(2)	(3)	(4)																			
"70ए	8443	फेसीमाईल मशीन	40%";																			
(1)	(2)	(3)	(4)																			

		"75ए 8508 स्वतःपूर्ण विद्युत 40%"; (8508 70 00 मोटर के साथ के अतिरिक्त) वेक्यूमक्लीनर																
		(vi) क्रम सं० 76 के बाद, कॉलम (3) में, प्रविष्टि में, अन्तिम शब्द "मोटर " के लिए "शीर्ष 8508 के वेक्यूमक्लीनरों के अलावा, मोटर" शब्द तथा अंको को प्रतिस्थापित किया जायेगा ; (vii) क्रम सं० 80 के सामने, - (क) कॉलम (2) में, प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "8517" को प्रतिस्थापित किया जायेगा ; (ख) कॉलम (3) में, प्रविष्टि में, "फेसिमाईल मशीन " शब्दों का लोप किया जायेगा ; (viii) क्रम सं० 81 के सामने, कॉलम (2) में," 8520" अंक का लोप किया जायेगा ; (ix) क्रम सं० 83 के सामने, कॉलम (3) में, प्रविष्टि के लिए, "रिकार्ड न की गई ऑडियो कैसेट्स ; रिकार्ड की गई अथवा रिकार्ड न की गई विडियो कैसेट्स ; रिकार्ड की गई अथवा रिकार्ड न की गई मैग्नेटिक डिस्क " को प्रतिस्थापित किया जायेगा ; (x) क्रम सं० 84 तथा 85 के सामने, कॉलम (2), (3) तथा (4) में, प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा ; (xi) क्रम सं० 86 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जायेगा, जिनके नाम हैं:																
		<table><tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td></tr><tr><td>"86</td><td>8517</td><td>सेलुलर अथवा मोबाइल फोन</td><td>40%";</td></tr><tr><td></td><td>अथवा 8525</td><td></td><td></td></tr><tr><td>86ए</td><td>8527</td><td>पेजर</td><td>40%";</td></tr></table>	(1)	(2)	(3)	(4)	"86	8517	सेलुलर अथवा मोबाइल फोन	40%";		अथवा 8525			86ए	8527	पेजर	40%";
(1)	(2)	(3)	(4)															
"86	8517	सेलुलर अथवा मोबाइल फोन	40%";															
	अथवा 8525																	
86ए	8527	पेजर	40%";															

	<p>(xii) क्रम सं० 90 के सामने, कॉलम (2) में, प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "8536 (8536 70 00 के अलावा)" को प्रतिस्थापित किया जायेगा ; तथा</p> <p>(xiii) क्रम सं० 98 के सामने, कॉलम (2), (3) तथा (4) में, प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा ।</p>
--	--

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2007 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/12/2006-टीआरयू (पार्ट)]

गौरव सिन्हा, अवर सचिव

टिप्पणी :-

(1) मूल अधिसूचना सं० 2/2005-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.) दिनांक 7 जनवरी, 2005 भारत के राजपत्र में, जी.एस.आर. 10 (ई), दिनांक 7 जनवरी, 2005, द्वारा प्रकाशित की गई तथा जी.एस.आर. 91 (ई), दिनांक 23 फरवरी 2005 द्वारा, अधिसूचना सं. 4/2005- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.) दिनांक 23 फरवरी, 2005 द्वारा अन्तिम संशोधन किया गया।

(2) मूल अधिसूचना सं० 2/2006-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.) दिनांक 1 मार्च, 2006 भारत के राजपत्र में, जी.एस.आर. 113 (ई), दिनांक 1 मार्च, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई तथा जी.एस.आर. 699 (ई), दिनांक 14 नवम्बर, 2006 द्वारा, अधिसूचना सं. 24/2006- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.) दिनांक 14 नवम्बर, 2006 द्वारा अन्तिम संशोधन किया गया।

4028 GI/06-2

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2006
No. 28/2006-Central Excise (Non-Tariff)

G.S.R. 777(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (2) of section 4A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby further amends the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) specified in column (2) of the Table below, to the extent specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

Table

Sl. No.	Notification Number and Date	Amendment
(1)	(2)	(3)
1.	2/2005-C.E. (N.T.), dated the 7 th January, 2005 vide G.S.R. 10(E) dated the 7 th January, 2005	<p>(i) In the said notification, for the words "Chapter or Heading No. or Sub-Heading No.", wherever they occur, the word "Chapter" shall be substituted;</p> <p>(ii) In the Table,-</p> <p>(a) against Sl. No. 1, for the entry in column (2), the entry "30" shall be substituted;</p> <p>(b) against Sl. No. 2, for the entry in column (2), the entry "30" shall be substituted;</p> <p>(iii) for the Explanation at the end of the notification, the following shall be substituted, namely-</p> <p>"Explanation 1.-For the purposes of this notification, "retail sale price" means the retail price displayed by the manufacturer under the provisions of the Drugs (Prices Control) Order, 1995.</p>

		<p>Explanation 2.- For the purposes of this notification, "Patent or proprietary medicaments" means any drug or medicinal preparation, in whatever form, for use in the internal or external treatment of, or for the prevention of ailments in human beings or animals, which bears either on itself or on its container or both, a name which is not specified in a monograph, in a Pharmacopoeia, Formulary or other publications, namely:-</p> <p>(a) the Indian Pharmacopoeia; (b) the International Pharmacopoeia; (c) the National Formulary of India; (d) the British Pharmacopoeia; (e) the British Pharmaceutical Codex; (f) the British Veterinary Codex; (g) the United States Pharmacopoeia; (h) the National Formulary of the U.S.A.; (i) the Dental Formulary of the U.S.A.; and (j) the State Pharmacopoeia of the U.S.S.R., or which is a brand name, that is, a name or a registered trade mark under the Trade marks Act, 1999 (47 of 1999), or any other mark such as a symbol, monogram, label, signature or invented words or any writing which is used in relation to that medicine for the purpose of indicating or so as to indicate a connection in the course of trade between the medicine and some person, having the right either as proprietor or otherwise to use the name or mark with or without any indication of the identity of that person."</p>								
2.	2/2006-C.E. (N.T.), dated the 1 st March, 2006 vide G.S.R. 113(E) dated the 1 st March, 2006	<p>In the Table annexed to the said notification,-</p> <p>(i) against S. No. 46, for the entry in column (2), the entry "3808" shall be substituted;</p> <p>(ii) after S. No. 46, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>"46A</td><td>3808 93 40</td><td>Plant- growth regulator</td><td>30%";</td></tr> </tbody> </table> <p>(iii) after S. No. 70 and the entries relating thereto,</p>	(1)	(2)	(3)	(4)	"46A	3808 93 40	Plant- growth regulator	30%";
(1)	(2)	(3)	(4)							
"46A	3808 93 40	Plant- growth regulator	30%";							

the following S. No. and entries shall be inserted, namely:-			
(1)	(2)	(3)	(4)
"70A	8443	Facsimile machines	40%";
(iv) against S. No. 73, in the entry in column (2), the figures "8470 40" shall be omitted;			
(v) after S. No. 75 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:-			
(1)	(2)	(3)	(4)
"75A	8508(except 8508 70 00)	Vacuum cleaners with self-contained electric motor	40%";
(vi) against S. No. 76, in the entry in column (3), for the last word "motor", the words and figures "motor, other than vacuum cleaners of heading 8508" shall be substituted;			
(vii) against S. No. 80, -			
(a) for the entry in column (2), the entry "8517" shall be substituted;			
(b) in the entry in column (3), the words "facsimile machines" shall be omitted;			
(viii) against S. No. 81, in the entry in column (2), figures "8520" shall be omitted;			
(ix) against S. No. 83, for the entry in column (3), the entry "Unrecorded audio cassettes; recorded or unrecorded video cassettes; recorded or unrecorded magnetic discs" shall be substituted;			
(x) against S. Nos. 84 and 85, the entries in column (2), (3) and (4) shall be omitted;			
(xi) for S. No. 86 and the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-			
(1)	(2)	(3)	(4)

		"86. 8517 or Cellular or mobile phones 40% 8525
		86A 8527 Pagers 40%";
		(xii) against S. No. 90, for the entry in column(2), the entry "8536 (except 8536 70 00)" shall be substituted; and
		(xiii) against S. No. 98, the entries in columns (2), (3) and (4) shall be omitted.

2. This notification shall come into force on the 1st day of January, 2007.

[F.No. 354/12/2006-TRU(Pt.)]

GAURAV SINHA, Under Secy.

Note:—

(1) The principal notification No. 2/2005-Central Excise (N.T.) dated the 7th January, 2005 was published in the Gazette of India, vide number G.S.R. 10(E), dated the 7th January, 2005 and was last amended vide notification No. 4/2005-Central Excise (N.T.), dated the 23rd February, 2005, vide number G.S.R. 91(E), dated the 23rd February, 2005.

(2) The principal notification No. 2/2006-Central Excise (N.T.) dated the 1st March, 2006 was published in the Gazette of India, vide number G.S.R. 113 (E) dated the 1st March, 2006 and was last amended vide notification No. 24/2006-Central Excise (N.T.), dated the 14th November, 2006, vide number G.S.R. 699 (E), dated the 14th November, 2006.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2006

सं. 29/2006-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गैर-टैरिफ)

सा.का.नि. 778(अ).— केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस संतुष्टि के बाद कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्द्वारा जी.एस.आर. 318 (ई), दिनांक 30 अप्रैल, 2001 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 20/2001-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.) में निम्नलिखित अगला संशोधन करती है :-

उक्त अधिसूचना में, प्रस्तावना में, "उपशीर्ष सं. 6101.00 अथवा 6201.00" शब्दों एवं अंकों के लिए " अध्याय 61 अथवा 62" शब्द एवं अंक प्रतिस्थापित किए जायेंगे।

[फा. सं. 354/12/2006-टीआरयू (पार्टे)]

गौरव सिन्हा, अवर सचिव

4028 GI/06-3

टिप्पणी :- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में, जी.एस.आर. सं. 318 (ई), दिनांक 30 अप्रैल, 2001 द्वारा अधिसूचना सं. 20/2001- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.) दिनांक 30 अप्रैल, 2001 द्वारा प्रकाशित की गई तथा अन्तिम संशोधन जी.एस.आर. 146 (ई), दिनांक 01 मार्च, 2002 द्वारा अधिसूचना सं. 7/2002- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.) दिनांक 1 मार्च, 2002 द्वारा किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2006

No. 29/2006-Central Excise (Non-Tariff)

G.S.R. 778(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 20/2001-Central Excise(N.T.), dated the 30th April, 2001, published vide G.S.R. 318(E), dated the 30th April, 2001, namely :-

In the said notification, in the preamble, for the words and figures “sub-heading No. 6101.00 or 6201.00”, the words and figures “Chapter 61 or 62” shall be substituted.

[F.No. 354/12/2006-TRU(Pt.)]

GAURAV SINHA, Under Secy.

Note:— The principal notification was published in the Gazette of India by notification No. 20/2001- Central Excise (N.T.), dated the 30th April, 2001, vide G.S.R. No. 318 (E), dated the 30th April, 2001 and was last amended by notification No. 7/2002-Central Excise (N.T.) dated the 1st March, 2002, vide number G.S.R. 146 (E), dated the 1st March, 2002.